

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2025—पौष 19, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्र. एफ-1-5-5-10-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में वित्त विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची-एक

(1) वित्त विभाग

अनुसूची- 'दो'

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम :- वित्त विभाग (स्थानीय निधि संपरीक्षा/पेंशन मविष्य निधि एवं बीमा)

पद की श्रेणी	पद/सबर्ग का नाम	सोधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सोधी भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशकाजनों के लिये चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरने पर रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरने पर रिक्त पद	लोकोगीटर डिसेबिलिटी डिपेंडेंस सम्मिलित है, पाल्सी, वृद्ध रोग युक्त, बीनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित पद	रिक्त पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और नानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता (1.5%)	भरने पर रिक्त पद	रिक्त पद	कुल योग (6+8+11+14)	कुल भरे पद (6+8+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति का तक की जावेगी		
																				भरने पर रिक्त पद	भरने पर रिक्त पद
1	2	3	3(a) 18	3(b) 82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	सहायक ग्रेड-3 (संवित्त)	100			6	1	0	1	2	1	1	2	1	1	1	0	1	6	2	4	LFA
द्वितीय	सहायक ग्रेड-3 (संवित्त)	118	36	82	7	2	0	2	2	0	2	2	0	2	1	0	1	7	0	7	pension
	योग	118	36	82	7	2	0	2	2	0	2	2	0	2	1	0	1	7	0	7	
	सहायक ग्रेड-3 (संवित्त)	216	54	164	13	3	0	3	4	1	3	4	1	3	2	0	2	13	2	11	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.